

प्रिय माता-पिता/देखभालकर्ता,

जैसा कि आप संभवतः इस बात से अवगत हैं, टर्म 1, 2022 के शुरू होने से पहले स्कूल के सभी स्टाफ को दोहरी खुराक का टीकाकरण करवाना अनिवार्य है।

राज्य सरकार ने [शिक्षाकर्मी \(सुलभता पर प्रतिबंध\) निर्देश \(संख्या 4\)](#) जारी किए हैं, जिन्हें वेबसाइट [wa.gov.au](#) पर प्रकाशित किया गया है। इन दिशा-निर्देशों में स्कूल स्थलों में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए टीकाकरण आवश्यकताएं शामिल हैं।

छात्र/छात्राओं को टीका लगवाने की **आवश्यकता नहीं है**।

माता-पिता/देखभालकर्ताओं को टीकाकृत होना **अनिवार्य नहीं है**, जब वे:

- अपने बच्चे/अपनी बच्ची को स्कूल में छोड़ने या वहाँ से वापिस ले जाने के लिए आते हैं;
- एड हॉक आधार पर स्कूल में स्वयंसेवा करते हैं;
- एसेंबली या पैरेंट टीचर इंटरव्यू जैसे आयोजन में भाग लेते हैं;
- या स्कूल में कार्यकाल के घंटों के बाद प्रवेश करते हैं।

'एड हॉक आधार' का अर्थ प्रति सप्ताह अधिकतम एक शिक्षण सुविधा में अधिकतम एक बार उपस्थित होना है।

माता-पिता/देखभालकर्ताओं के लिए टीकाकरण (1 जनवरी 2022 से टीके की एक खुराक और 31 जनवरी 2022 से टीके की दो खुराकों) का प्रमाण या इससे अपवाद दिखाना **अनिवार्य है**, जब वे:

- एक सप्ताह के अंदर स्कूल में एक से अधिक बार स्वयंसेवा करते हैं (इसमें स्कूल कैंटीन, यूनिफॉर्म स्टोर या कक्षा के अंदर साक्षरता या आंकिकता कार्यक्रम में स्वयंसेवा करना शामिल है);
- सप्ताह में एक से अधिक बार स्कूल में अवैतनिक क्षमता में काम करते हैं; या
- स्कूल में किसी अनुमोदित कार्यक्रम में भाग लेते हैं, जहां माता-पिता की उपस्थिति अनिवार्य है (जैसे KindiLink)।

COVID-19 टीकाकरण या अपवाद के प्रमाणों के निम्नलिखित प्रारूप स्वीकार्य हैं:

- स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई COVID-19 टीकाकरण की लिखित पुष्टि;
- COVID-19 डिजिटल सर्टिफिकेट, जिसमें केवल आपके COVID-19 टीकाकरण प्रदर्शित किए गए हों। Services Australia के पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध है कि आप [अपना COVID-19 डिजिटल सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते/सकती हैं](#);
- आपका प्रतिरक्षण इतिहास विवरण, जिसमें आपको लगाए गए सभी टीके दर्शाए गए हैं। Services Australia के पास इस बारे में जानकारी उपलब्ध है कि आप [अपना प्रतिरक्षण इतिहास विवरण कैसे प्राप्त कर सकते हैं](#)।
- राष्ट्रमंडल सरकार द्वारा जारी किया गया अंतर्राष्ट्रीय COVID-19 टीकाकरण सर्टिफिकेट। इसमें Australian Immunisation Register में दर्ज आपका COVID-19 टीकाकरण दर्शाया जाता है;
- Australian Immunisation Register द्वारा जारी किया गया चिकित्सीय अपवाद; या
- WA Chief Health Officer द्वारा जारी किया गया अस्थायी अपवाद।

हम यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारा स्कूल एक COVID-19 सुरक्षित स्थल है। छात्रों, सहकर्मियों और अपने समुदाय को सुरक्षित रखने के लिए हम सभी को क्या करने की ज़रूरत है, इसकी स्पष्ट दिशा हमें प्रदान की गई है। यदि आपके पास कोई प्रश्न है, तो कृपया 9461 2700 पर संपर्क करें।

Parents/ carers must wear a mask while in buildings.

आपके समर्थन के लिए धन्यवाद।